

12043

श्री. शगुन, उम्र 60 वर्ष, जो भारत के निवासी हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी आय से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

सकल कुल आय	₹ 15,95,000
अपने जीवन और जीवनसाथी के जीवन पर ली गई पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया	₹ 40,000
आश्रित माता-पिता के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान	₹ 40,000
भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता पर ब्याज	₹ 20,000
भारतीय स्टेट बैंक में 5 वर्षों के लिए सावधि जमा में निवेश	₹ 1,20,000

आकलन वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत उसकी कुल कर देनदारी की गणना करें।

[This question paper contains 4 printed pages]

Your Roll No. :
Sl. No. of Q. Paper : **12043** **I**
Unique Paper Code : 6967000008
Name of the Paper : Financial Literacy
Name of the Course : **Value Addition Course (VAC)**
Semester : I/III

Time : 1 Hour **Maximum Marks : 30**

Instructions for Candidates:

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

(a) Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.

इस प्रश्न-पत्र के प्राप्त होने पर तुरंत शीर्ष पर अपना रोल नंबर लिखें।

(b) Answer may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तर एक ही भाषा में होने चाहिए।

- (c) **First** question is compulsory and attempt any **two** questions from the remaining.

पहला प्रश्न अनिवार्य है और शेष में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- (d) Each question carries **10** marks.

प्रत्येक प्रश्न **10** अंक का है।

- (e) Use of simple calculator is allowed.

साधारण कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है।

1. Write short notes on any **two** of the following :

5×2=10

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। :

- (a) Systematic Investment Plan (SIP)

व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी)

- (b) Ponzi Schemes

पोंजी योजनाएँ

- (c) Permanent Account Number

स्थायी खाता संख्या

2. What is medical insurance policy. Discuss the need and importance of buying a health insurance policy. 10

मेडिकल बीमा पॉलिसी क्या है, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आवश्यकता और उसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

3. What do you understand by spending management ? Discuss the steps to be followed in spending management. 10

व्यय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ? व्यय प्रबंधन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।

4. Mr. Shagun, aged 60 years, who is a resident in India, submits the following information pertaining to his income for the financial year 2024-25. 10

Gross Total Income	₹ 15,95,000
Life insurance premium paid for policy taken on his own life and spouse	₹ 40,000
Medical Insurance Policy premium paid for dependent parents	₹ 40,000
Interest on savings account in State Bank of India	₹ 20,000
Investment in Term deposit for 5 years with State Bank of India	₹ 1,20,000

Compute his total tax liability under both old and new tax regime for the assessment year 2025-26.